

## चेंचू जनजाति

[स्रोत: द हट्टि](#)

### चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश में [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना \(MGNREGS\)](#) के तहत चेंचू विशेष परियोजना के बंद होने के परिणामस्वरूप [चेंचू जनजाति](#) को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे उनकी आजीविका, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

### चेंचू कौन हैं?

- चेंचू (जिसे 'चेंचुवारु' या 'चेंचवार' भी कहा जाता है) संख्यात्मक रूप से ओडिशा की सबसे छोटी अनुसूचित जनजाति है।
  - उनकी पारंपरिक जीवनशैली शिकार और भोजन संग्रहण पर आधारित रही है।
  - उन्हें सबसे पुरानी तेलुगु भाषी जनजातियों में से एक माना जाता है।
- ये आंध्र प्रदेश के 12 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से एक हैं जो कम साक्षरता और विकास तक सीमित पहुँच वाली जनजातियों को दिया गया वर्गीकरण है।
- ये मुख्य रूप से वन क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमें [नलामालाई वन](#) और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, तथा यह अपनी आजीविका के लिये वनोपज पर निर्भर होते हैं।


### PVTGs के लिये प्रमुख पहल

- [जनजातीय गौरव दिवस](#)
- [वकिसति भारत संकल्प यात्रा](#)
- [PM PVTG मशीन](#)

### मनरेगा क्या है?

- परिचय:
  - यह [ग्रामीण विकास मंत्रालय](#) द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया विश्व का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है।
  - यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को (जो वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों) [सौ दिनों के रोजगार](#) की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।
- कार्य करने का अधिकार:
  - पूर्ववर्ती रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत, इस अधिनियम का उद्देश्य अधिकार-आधारित ढाँचे के माध्यम से गरीबी के दीर्घकालिक कारणों का समाधान करना है।
  - इसके लाभार्थियों में कम से कम एक तहई महिलाएँ होनी चाहिये।
  - [न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948](#) के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिये निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिये।

# भारत में प्रमुख जनजातियाँ



- अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या का 8.6% है (जनगणना 2011)। मसौदा राष्ट्रीय जनजातीय नीति, 2006 में भारत की 698 अनुसूचित जनजातियाँ दर्ज हैं।
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs) ऐसी जनजातियों का समूह है जो जनजातीय समूहों के बीच अधिक अचुरक्षित/सुभेद्य हैं। 75 सूचीबद्ध PVTGs में से सबसे अधिक संख्या ओडिशा में पाई जाती है।
- गोंड के बाद भील सबसे बड़ा आदिवासी समूह (भारत की कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी का 38% है)।
- भारत की सबसे अधिक जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में पाई जाती है (जनगणना 2011)।
- संयाल भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। संयालों की शासन प्रणाली, जिसे मांडी-परगना के नाम से जाना जाता है, की तुलना स्थानीय स्वशासन से की जा सकती है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन आदेश), 1956 के अनुसार, लक्षद्वीप के ऐसे निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे, उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाता है।
- संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करता है।
- अनुच्छेद 275 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष धन देने का प्रावधान करता है।

//

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2019)

1. मोरगिा (सहजन वृकष) एक फलीदार सदापरणी वृकष है।
2. इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानकि वृकष है।
3. भारत में अधकिांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संगृहीत की जाती है।
4. भारत इमली और मोरगिा के बीज नरियात करता है।
5. मोरगिा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईधन के उत्पादन में कयिा जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1, 2, 4 और 5
- (b) केवल 3, 4 और 5
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) केवल 1, 2, 3 और 5

उत्तर:(b)

प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? (2021)

- (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- (b) पंचायती राज मंत्रालय
- (c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (d) जनजातीय मामलों का मंत्रालय

उत्तर: (d)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/chenchu-tribe>

